



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4846]

नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 8, 2018/अग्रहायण 17, 1940

No. 4846]

NEW DELHI SATURDAY, DECEMBER 8, 2018/AGRAHAYANA 17, 1940

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2018

का.आ. 6076 (अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. ४१६४(अ) दिनांक २३ अगस्त, २०१८, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा मध्यप्रदेश राज्य के देवास जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ३ के कि.मी. ५३८+१०० से कि.मी. ५५७+३३१ (ब्यावरा-देवास सेक्शन) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमिका अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "१९ सितम्बर २०१८" को "दैनिक भास्कर" और "फ्रीप्रेस" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्टें प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमिका पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के देवास जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ३ के कि.मी. 538.1 से कि.मी. 557.331 तक (ब्यावरा-देवास सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण ।

राज्य का नाम: मध्यप्रदेश		जिले का नाम: देवास			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयरमें)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुककानाम: टोंकखुर्द				
	गांवकानाम: आलरी				
1	700 / 6 Part	निजी	पडत	0.009	खुशीलाल पितामाधोलाल जातीबलाईनि. ग्राम (७०० / ६ पै.)
2	700 / 3 Part	निजी	पडत	0.009	कैलाशपुरी पितारामपुरी जातिगुस्साईनि. ग्राम (७०० / ३ पै.)
	गांवकानाम: बिरगोद				
3	299 Part	निजी	सिंचित	0.08	बलवीरसिंह पिताप्रेमसिंहजाति राजपूतनि. कलमा (२९९ पै.)
4	301 / 3 Part	निजी	सिंचित	0.054	बलवीरसिंह पिताप्रेमसिंहजाति राजपूतनि. कलमा (३०१ / ३ पै.)
5	301 / 4, 301 / 5 Part	निजी	सिंचित	0.014	सत्यपाल पिताबलवीरसिंह जातिराजपूत (३०१ / ४, ३०१ / ५ पै.)

	गांवकानाम: टोंककला				
6	874 / 10 / Min-3	निजी	सिंचित	0.088	पवनसिंह पितागजराजसिंह जातिराजपूतनि. ग्राम (८७४ / १० / मिन -३)
			कुल	0.2540	

[फा.सं. NHAI/PIU/GUNA/2011/3D9]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th December, 2018

S.O. 6076(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. 4164 (E) dated 23rd August, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH-3 on the stretch of land from Km 538.1 to Km 557.331 (Biaora-Dewas Section) in the district of DEWAS in the state of MADHYA PRADESH

And whereas the substance of the said notification has been published in “DainikBhaskar” and “Free Press” both dated 19th September, 2018; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH-3 in the stretch of land from Km 538.1 to Km 557.331 (Biaora-Dewas Section) in the district of DEWAS in the state of MADHYA PRADESH

State: MADHYA PRADESH			District: DEWAS		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No:
1	2	3	4	5	6
	Taluk: TonkKhurd				
	Village: Aalri				
1	700 / 6 Part	Private	Padat	0.009	Khushilal S/o MadholalJaatiBalaiResi. Village 700 / 6 Part

2	700 / 3 Part	Private	Padat	0.009	Kailashpuri S/o Rampuri Cast Gussai Resi. Village 700 / 3 Part
Village: Birgod					
3	299 Part	Private	Irrigated	0.08	Balvirsingh S/o Premsingh Cast Rajput Res. Kalama 299 Part
4	301 / 3 Part	Private	Irrigated	0.054	Balvirsingh S/o Premsingh Cast Rajput Res. Kalama 301 / 3 Part
5	301 / 4, 301 / 5 Part	Private	Irrigated	0.014	Satyapal S/o Balvirsingh Cast Rajput 301 / 4, 301 / 5 Part
Village: Tonk Kala					
6	874 / 10 / Min-3	Private	Irrigated	0.088	Pawansingh S/o Gajrajsingh Cast Rajput Resi. Village 874 / 10 / Min-3
			TOTAL	0.254	

[F. No. NHAI/PIU/GUNA/2011/3D9]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.